



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7—अक्टूबर 13, 2006 (आश्विन 15, 1928)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2006 (ASVINA 15, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	857
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	957
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1383
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निर्वचक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2757
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	609
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7193
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	647
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	857	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	957	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	2757
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1383	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	609
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	7193
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	647
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

\* Folio not received

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. 98-प्रेज/2006--सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने के संबंध में दिनांक 19 फरवरी, 2005 को भारत के राजपत्र के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 6-प्रेज/2005, दिनांक 26 जनवरी, 2005 के आंशिक संशोधन में अधिसूचना की क्रम सं. 10 पर उल्लिखित श्री के. दक्षिणामूर्ति, ग्रेड-I वार्डन, उप-जेल, अरकोणम, तमिलनाडु का नाम एवं पदनाम निम्न प्रकार पढ़ा जाए :--

श्री के. दक्षिणामूर्ति  
ग्रेड-II वार्डन  
उप-जेल, अरकोणम  
तमिलनाडु

बरूण मित्रा  
निदेशक

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 2006

सं. 5(1)-बी (पी.डी.)/2006--आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2006-2007 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8% (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष ही रहेगी। यह दर 1.4.2006 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :--

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
11. नयी पेंशन योजना (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना)।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी. एस. चौहान  
विशेष कार्याधिकारी (बजट)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. 12019/7/2005-एफपीपी--यूरिया इकाइयों की नई मूल्य-निर्धारण योजना के प्रबंधन और प्रचालन के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 13.3.2003 के संकल्प सं. 12019/5/98-एफपीपी द्वारा उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का पुनर्गठन किया गया था। श्री वी. एन. राय के दिनांक 8.7.2006 से कृषको के प्रबंध निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए स्थान पर श्री वी. डी. सिन्हा, प्रबंध निदेशक, कृषको को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) में उद्योग सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। एफआईसीसी में उद्योग सदस्य के रिक्त स्थान पर श्री सिन्हा की नियुक्ति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 4.10.2007 तक या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

3. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दीपक सिंघल  
संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2006

संकल्प

सं. 55-46/2003-एएचटी--इस मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 2004 के संकल्प संख्या 55-46/2003-एएचटी के क्रम में भारत सरकार ने मौजूदा गोसंवर्धन सलाहकार परिषद को तत्काल प्रभाव से परिसीमित करने तथा इस

संकल्प के प्रकाशन की तिथि से इसे पुनर्गठित करने तथा इसे 'केन्द्रीय गोसंवर्धन सलाहकार समिति' का नया नाम देने का निर्णय लिया है।

इस केन्द्रीय गोसंवर्धन सलाहकार समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा :—

- (1) अध्यक्ष 1. कृषि मंत्री
  - (2) उपाध्यक्ष 2. कृषि राज्य मंत्री
  - (3) सदस्य भारत सरकार संसाधन
    3. सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
    4. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
    5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
    6. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
    7. संयुक्त सचिव, (सम्बद्ध), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
    8. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
    9. संयुक्त/उप आयुक्त (सम्बद्ध), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली सदस्य सचिव।
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि
10. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
  11. आयुक्त, पशुपालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार पुणे (महाराष्ट्र)
  12. आयुक्त, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।
  13. आयुक्त, पशुपालन विभाग, तमिलनाडु सरकार, चैन्नई।
  14. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
  15. सचिव, पशुपालन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता।
  16. सीईओ, राजस्थान पशुधन विकास एजेंसी, जयपुर।
  17. सीईओ, आन्ध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी, शान्ति नगर, हैदराबाद।
- गोपशुओं से संबंधित अन्य प्रमुख संगठन
18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात।
  19. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली।

20. निदेशक, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल (हरियाणा)
21. अध्यक्ष, बीएआईएफ विकास अनुसंधान संस्थान, पुणे (महाराष्ट्र)  
गैर सरकारी गोपशु प्रजनक/डेयरी किसान
22. आचार्य श्री घनश्याम जी, भुवनेश्वरी पीठ, गोंदल, जिला राजकोट, गुजरात।
23. डा. सुधीर नीलकंठ साने, महाप्रबंधक, डायनामिक्स डेयरी सहकारिता लिमिटेड, बारामती, महाराष्ट्र।
24. श्री गौतम पोद्दार, प्रबंध निदेशक, दुर्गा एग्रोफार्मर्स लि. सूरीयाकन, बशरतपुर, गोरखपुर-273004 फैंक्स 0551-500894
25. श्री ए. नरसिंहमूर्ति, एक्टिंग अध्यक्ष, होलस्टीन प्रेशियन ब्रीडर्स एसोसिएशन, कोलार कर्नाटक।
26. श्री ओम प्रकाश आर्या, अध्यक्ष, श्री पंचायत गोशाला, गढ़ रोड, हापुड़, जिला गाजियाबाद (यू.पी.)
27. श्री दर्शन सिंह, अलहोरन गांव, जिला पटियाला, पंजाब।

1. यह समिति एक सलाहकार निकाय होगी और इसके मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) गोपशुओं के संरक्षण, विकास, प्रजनन, आहार तथा विपणन से जुड़ी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना।

(ख) उपरोक्त किसी मामले पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।

(ग) गोवंश सम्पदा के विकास विशेषकर उपयुक्त तर्ज पर गोशालाओं के विकास की समीक्षा एवं समन्वय करना।

(घ) गोपशुओं के विकास विशेषकर उस स्थान पर जहां गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग की आवश्यकता हो, विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू करना।

(ङ) भारत सरकार की आवश्यकता के अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र में गोपशु के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम चलाना।

4. केन्द्रीय गोसंवर्धन सलाहकार समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर समय-समय पर होगी। क्रम संख्या 22 से लेकर 27 तक के गैर सरकारी सदस्यों को केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्रालय के अगले आदेश/संकल्प जो पहले हो तक के लिए नामित किया जाएगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के शासन/भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएं।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित करवा दिया जाए।

अजय भट्टाचार्य  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

संकल्प

सं. 27-25/2001-यू.यू.-- अरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अध्याय-III की धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार और अरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को गठित करने संबंधी दिनांक 27.10.2004 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में भारत सरकार डॉ. ए. टी. अरियारटन और प्रोफेसर डायना इक के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त करती है :--

(1) डॉ. विशाखा एन. देसाई  
अध्यक्ष  
एशिया सोसायटी  
725, पाक एवेन्यू  
न्यूयार्क, एन. वाई. 10021-5088,  
यू.एस.ए.

(2) प्रोफेसर माइकल मरफी  
पी. एम. वी. 247  
1001 ब्रिजवे  
सोसालिटे  
सी.ए. 94965  
यू.एस.ए.

2. इन सदस्यों का कार्यकाल परिषद के शेष कार्यकाल अर्थात् अक्टूबर, 2008 तक होगा।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प को जन साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी जाए।

केशव देसिराजू  
संयुक्त सचिव

दिनांक 20 सितम्बर 2006

सं. 11-2/2000 डी-II (भाषा)--अधोहस्ताक्षरी को आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने भारतीय भाषा संवर्धन परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिसका गठन इस प्रकार किया गया है :--

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. प्रधानमंत्री             | अध्यक्ष   |
| 2. मानव संसाधन विकास मंत्री | उपाध्यक्ष |

- |  |               |
|--|---------------|
| 3. नीलोमोनी फूकन, कवि  | सदस्य-असमी    |
| 4. डा. मंगल सिंह हजोवरी, शिक्षाविद                                       | सदस्य-बोडो    |
| 5. प्रो. जी. एन. देवी, लेखक, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित           | सदस्य-गुजराती |
| 6. श्री गिरीश कर्नाड, लेखक, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित                  | सदस्य-कन्नड़  |
| 7. श्री शफी शौक, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित                       | सदस्य-कश्मीरी |
| 8. श्री एम. टी. वासुदेवन नायर, लेखक, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित         | सदस्य-मलयालम  |
| 9. श्रीगोविन्द झा, कोशकार, साहित्य सम्मान से सम्मानित                    | सदस्य-मैथिली  |
| 10. श्री सुनील गगोपाध्याय, उपन्यासकार, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित | सदस्य-बांग्ला |
| 11. डॉ. ललित मंगोत्रा, अध्यक्ष, डोगरी संस्था                             | सदस्य-डोगरी   |
| 12. श्रीमती कृष्णा सोबती, लेखिका, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित      | सदस्य-हिन्दी  |
| 13. श्री दामोदर मौजू, लेखक, साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्तकर्ता           | सदस्य-कोंकणी  |
| 14. प्रो. भला चन्द्र नेमदे, लेखक साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित       | सदस्य-मराठी   |
| 15. प्रो. ई. नीलकण्ठ सिंह, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित             | सदस्य-मणिपुरी |
| 16. श्री घनश्याम नेपाल, कवि  | सदस्य-नेपाली  |
| 17. प्रो. बी. एन. पटनायक, भाषाविद  | सदस्य-उड़िया  |
| 18. डॉ. वी. एन. झा, भाषाविद, संस्कृत के प्रोफेसर, पुणे विश्वविद्यालय     | सदस्य-संस्कृत |
| 19. डॉ. के. सी. टूडू   | सदस्य-संथाली  |
| 20. श्रीमती शिवाशंकर, लेखिका, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित          | सदस्य-तमिल    |
| 21. प्रो. सतिन्दर सिंह "नूर", लेखक, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित    | सदस्य-पंजाबी  |
| 22. श्री परम अभीचंदानी, लेखक, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित          | सदस्य-सिंधी   |
| 23. अब्बूरी छया देवी, लेखिका एवं कवियत्री                                | सदस्य-तेलुगू  |
| 24. श्री शहरयार, प्रो. एवं कवि साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित         | सदस्य-उर्दू   |
| 25. सचिव, उच्चतर शिक्षा  | सदस्य-सचिव    |

परिषद भारत के सावधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं के विकास, प्रचार-प्रसार तथा इनको बढ़ावा देने हेतु उपायों के बारे

में सरकार को सलाह देगी। यह इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

#### आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति सूचनार्थ परिषद के सदस्यों, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग; निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, निदेशक, राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद; निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान; निदेशक, केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान; राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद; प्रधानमंत्री का कार्यालय; संसदीय कार्य विभाग, लोकसभा सचिवालय; भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

आदेश है कि सर्वसाधारण सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजू  
संयुक्त सचिव

#### शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. के.-14012/2/2006-2006-जेएनएनयूआरएम--राष्ट्रपति इस मंत्रालय के दिनांक 9 जनवरी, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी अवस्थापना तथा शासन संबंधी उप-मिशन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति और मानीटरिंग के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) पुनर्गठित करते हैं, जो इस प्रकार है :--

- |  |         |
|--|---------|
| 1. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय                             | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय               | सदस्य   |
| 3. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)                     | सदस्य   |
| 4. प्रधान सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग                   | सदस्य   |
| 5. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                        | सदस्य   |
| 6. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय            | सदस्य   |
| 7. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास मंत्रालय | सदस्य   |

8. मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन—सदस्य

9. सलाहकार केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय सदस्य  
इंजीनियरी संगठन शहरी विकास मंत्रालय,  
नई दिल्ली।

10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास और सदस्य  
नगर विकास निगम

11. संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास सदस्य-सचिव  
मंत्रालय

एस. सी. कनौजिया  
अवर सचिव

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2006

सं. क्यू-16012/2/2005-ई.एस.ए. (डब्ल्यू. ई.)--जबकि श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 29 मई, 2006 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/2/2005-ई.एस.ए. (डब्ल्यू. ई.) के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड के संघटन को आम जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि नियोक्ता संगठन के एक प्रतिनिधि और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि, तथा राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधियों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

अतः अब आम जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड की नियमावली तथा विनियमों के नियम 3 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड का सदस्य नामित किया जाता है।

#### नियोक्ता संगठन के प्रतिनिधि

- |   |       |
|---|-------|
| 1. श्रीमती मालती बाड,<br>कार्यकारी निदेशक,<br>गुजरात नियोक्ता संगठन,<br>9, निकुंज अपार्टमेंट,<br>बीजा कोर्ट लेन,<br>बी/एच, पार्थ एवेन्यू, वासना रोड,<br>वडोदरा-390007 | सदस्य |
|---|-------|

कामगार संगठन के एक प्रतिनिधि और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

यू. डी. एन. सिद्धवानी  
उप सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th September 2006

No. 98-Pres/2006—In partial modification of this Secretariat Notification No. 6-Pres/2005, dated 26th January, 2005 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India on 19th February, 2005 in connection with the award of Correctional Service Medal for Meritorious Service, the name and designation of Shri K. Dakshinamoorthy, Grade-I Warder, Sub-jail, Arakonam, Tamil Nadu, appearing at S. No. 10 of the notification may be read as under :—

Shri K. Dakshinamoorthy  
Grade-II Warder  
Sub-jail, Arakonam  
Tamil Nadu

BARUN MITRA  
Director

## MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th September 2006

## RESOLUTION

No. 5(1)-B(PD)/2006—It is announced for general information that during the year 2006-2007, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall continue to carry interest at the rate of 8% (Eight per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1.4.2006. The funds concerned are :—

1. The general Provident Fund (Central Service).
  2. The Contributory Provident Fund (India).
  3. The All India Services Provident Fund.
  4. The State Railway Provident Fund.
  5. The General Provident Fund (Defence Services).
  6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
  7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
  8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
  9. The Defence Services Officers Provident Fund
  10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
  11. New Pension System (Defined Contribution Pension Scheme).
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

V. S. CHAUHAN  
Officer on Special Duty (Budget)

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 20th September 2006

## RESOLUTION

No. 12019/7/2005-FPP—The Fertilizer Industry Coordination Committee was reconstituted vide Ministry of Chemicals and Fertilizers' Resolution No. 12019/5/98-FPP dated 13.3.2003 to administer and operate the New Pricing Scheme for urea units. It has been decided to appoint Shri B. D. Sinha, Managing Director, KRIBHCO as industry member in the Fertilizer Industry coordination Committee (FICC) against the vacancy arising from retirement of Shri V. N. Rai as Managing Director, KRIBHCO on 8.7.2006. The appointment of Shri Sinha as industry member in FICC will be effective from the date of issue of the Resolution and for a period up to 4.10.2007 or until further orders, whichever is earlier.

## ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat and the Ministries and Departments of the Government of India concerned.

3. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEEPAK SINGHAL  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING &amp; FISHERIES)

New Delhi, the 26th September 2006

## RESOLUTION

No. 55-46/2003-AHT—In continuation of this Ministry's Resolution No. 55-46/2003-AHT dated the 27th February, 2004 the Government of India has decided to liquidate the existing Gosamvardhana Advisory Council with immediate effect and to reconstitute and rename it as "Central Advisory committee for Gosamvardhana" from the date of publication of this Resolution.

The composition of the Central Advisory Committee for Gosamvardhana will be as under :—

- |                     |  |
|---------------------|--|
| (1) Chairman        | 1. Agriculture Minister.   |
| (2) Deputy Chairman | 2. Minister of State for Agriculture.  |
| (3) Members         | Government of India Resources.   |
|                     | 3. Secretary, Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Department, Krishi Bhawan, New Delhi. |

4. Secretary, Department of Biotechnology, C.G.O. Complex, New Delhi.
  5. Secretary, Department of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi.
  6. Secretary, Ministry of Environment & Forest, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi.
  7. Joint Secretary (concerned), Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Department, Krishi Bhawan, New Delhi.
  8. Animal Husbandry Commissioner, Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Department, Krishi Bhawan, New Delhi.
  9. Joint/Deputy Commissioner (concerned), Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Department, Krishi Bhawan, New Delhi, Member Secretary, State Government Representatives
  10. Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of UP, Lucknow.
  11. Commissioner, Department of Animal Husbandry, Government of Maharashtra, Pune (Maharashtra)
  12. Commissioner, Department of Animal Husbandry, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
  13. Commissioner, Department of Animal Husbandry, Government of Tamil Nadu, Chennai.
  14. Director, Department of Animal Husbandry, Government of Haryana, Chandigarh.
  15. Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of West Bengal, Kolkata.
  16. CEO, Rajasthan Livestock Development Agency, Jaipur.
  17. CEO, Andhra Pradesh Livestock Development Agency, Shantinagar, Hyderabad.
  - Other prominent cattle related organisations
  18. Chairman, National Dairy Development board, Anand, Gujarat.
  19. Deputy Director General (Animal Science), ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi.
  20. Director, National Bureau of Animal Genetic Resources, Karnal (Haryana).
  21. President, BAIF Development Research Foundation, Pune (Maharashtra).  
Non-official Cattle Breeders/Dairy Farmers
  22. Acharya Shri. Ganshyamji, Bhuvaneshwari Pith, Gondal, Rajkot District, Gujarat.
  23. Dr. Sudheer Neelkanth Sane, General Manager, Dynamix Dairy Cooperative Ltd., Baramati, Maharashtra.
  24. Shri Gautam Poddar, Managing Director, Durga Agrofarms Ltd., Suriyakaun, Basharatpur, Gorakhpur-273004  
Fax 0551-500894.
  25. Shri A. Narasimhamurthy, Acting President, Holstein Friesian Breeders Association, Kolar, Karnataka.
  26. Shri Om Prakash Arya, Chairman, Shree Panchayat Goshala, Garh Road, Hapur, Gaziabad District (UP).
  27. Shri Darshan Singh, Alhoran Village, Patiala District, Punjab.
3. The Committee will be an advisory body and will have the following main functions :—
- (a) To review from time to time the schemes relating to the preservation, development, breeding, feeding and marketing of cattle.
  - (b) To advise the Central and State Governments on any of the above matters.
  - (c) To review and coordinate the development of cattle wealth particularly, development of gaushalas on proper lines.
  - (d) To undertake promotional activities for the development of cattle, especially where cooperation of the non-official institutions is required.
  - (e) To undertake any other functions as required by the Government of India for the development of cattle wealth in any area of the country.
4. The Central Advisory Committee for Gosamvardhana will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman. The nomination of non-official members at Sl. No. 22-27 shall be for a period of three years only or till further orders/resolution of this Ministry whichever is earlier.
- ORDER**
- Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories/Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office.
- Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.
- AJAY BHATTACHARYA**  
Jt. Secy.



## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPARTMENT OF SECONDARY &amp; HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th July 2006

## RESOLUTION

No. 27-25/2001-U.U.—In terms of sub-sections (1) and (2) of Section 21 of Chapter-III of the Auroville Foundation Act, 1988 and in continuation of Resolution of even number dated 27.10.2004 constituting the Auroville International Advisory Council, the Government of India hereby nominates the following persons as members of the International Advisory Council in place of Dr. A. T. Ariyaratne and Prof. Diana Eck :—

(1) Dr. Vishakha N. Desai  
President  
Asia Society  
725 Park Avenue  
New York  
N.Y. 10021-5088  
U.S.A.

(2) Prof. Michael Murphy  
PMB 247  
1001 Bridgeway  
Sausalito  
CA 94965  
U.S.A.

2. The terms of office of these Members will be for the remaining term of the Council i.e. upto October 2008.

## ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.

KESHAV DESIRAJU  
Jt. Secy.

The 20th September 2006

No. 11-2/2000-D. II (L)—The undersigned is directed to inform you that the Government of India is the Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education has decided to reconstitute the Council for the promotion of Indian Languages with the following composition :—

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Prime Minister                          | Chairman        |
| 2. Minister of Human Resource Development  | Deputy Chairman |
| 3. Sri Nilomoni Phukan, Poet               | Member-Assamese |
| 4. Dr. Mangal Singh Hazowary, Educationist | Member-Bodo     |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 5. Prof. G. N. Devy, Writer, Sahitya Akademi Awardee            | Member-Gujarati  |
| 6. Sri Girish Karnad, Writer Gyanapeetha Awardee                | Member-Kannada   |
| 7. Sri Shafi Shauq, Sahitya Akademi Awardee                     | Member-Kashmiri  |
| 8. Sri M. T. Vasudevan Nair, Writer, Gyanapeetha Awardee        | Member-Malayalam |
| 9. Sri Govind Jha, Lexicographer, Sahitya Awardee               | Member-Maithili  |
| 10. Sri Sunil Gangopadhyaya, Novelist, Sahitya Akademi Awardee  | Member-Bangla    |
| 11. Dr. Lalit Mangotra, Chairman, Dogri Sanstha                 | Member-Dogri     |
| 12. Mrs. Krishna Sobti, Writer, Sahitya Akademi Awardee         | Member-Hindi     |
| 13. Sri Damodar Mauzo, Writer, Sahitya Akademi Awardee          | Member-Konkani   |
| 14. Prof. Bhala Chandra Nemade, Writer Sahitya Akademi Awardee  | Member-Marathi   |
| 15. Prof. E. Nilakanta Singh, Sahitya Akademi Awardee           | Member-Manipuri  |
| 16. Sri Ghanashyam Nepal, Poet                                  | Member-Nepali    |
| 17. Prof. B. N. Patnaik, Linguist                               | Member-Oriya     |
| 18. Dr. V. N. Jha, Linguist, Prof. of Sanskrit, Pune University | Member-Sanskrit  |
| 19. Dr. K. C. Tudu  | Member-Santhali  |
| 20. Smt. Sivashankari, Writer, Sahitya Akademi Awardee          | Member-Tamil     |
| 21. Prof. Satinder Singh "Noor" Writer Sahitya Akademi Awardee  | Member-Punjabi   |
| 22. Sri Param Abichandani, Writer Sahitya Akademi Awardee       | Member-Sindhi    |
| 23. Abburi Chaya Devi, Author & Poet                            | Member-Telugu    |
| 24. Sri Shaharyar, Professor & Poet Sahitya Akademi Awardee     | Member-Urdu      |
| 25. Secretary, Higher Education                                 | Member-Secretary |

The Council will advise the Government on measures to be taken for the development, propagation and promotion of the Indian Languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India. It will function for a period of two years from the date of issue of this Office Memorandum.

## ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Members of the Council, Director, Central Hindi

Directorate, Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology; Director, Central Institute of Indian Languages; Director, National Council for Promotion of Urdu Language, Director, Kendriya Hindi Sansthan; Director, Central Institute of English and Foreign Languages; National Council for Educational Research and Training; Prime Minister's Office, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KESHAV DESIRAJU  
Jt. Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th September 2006

No. K-14012/2/2006-JNNURM.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 9th January 2006, the President is pleased to reconstitute the Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) in the Ministry of Urban Development for Sub-Mission on Urban Infrastructure and Governance under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) for sanctioning and Monitoring of Projects submitted by State Governments/UTs, as follows :—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Secretary, M/o Urban Development                             | Chairman |
| 2. Secretary, M/o Housing and Urban Poverty Alleviation         | Member   |
| 3. Secretary, M/o Finance (Department of Expenditure)           | Member   |
| 4. Principal Advisor (HUD), Planning Commission                 | Member   |
| 5. Secretary, M/o Environment and Forests                       | Member   |
| 6. Secretary, M/o Social Justice and Empowerment                | Member   |
| 7. Joint Secretary and Financial Advisor, M/o Urban Development | Member   |
| 8. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation        | Member   |

- |   |                  |
|---|------------------|
| 9. Advisor, Central Public Health & Environmental Engineering Organisation, M/o Urban Development, New Delhi. | Member           |
| 10. Charman-cum-Managing Director, Housing and Urban Development Corporation                                  | Member           |
| 11. Joint Secretary (UD), M/o Urban Development   | Member Secretary |

S. C. KANOJIA  
Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 21st September 2006

No. Q-16012/2/2005-ESA (WE)—Whereas in the Ministry of Labour and Employment Notification No. Q-16012/2/2005-ESA(WE) dated the 29th May, 2006 notifying the composition of the reconstituted Central Board for Workers Education for information of the public, it was mentioned that the name of one representative of Workers Organization, one representative of Employers Organization and one representative each from Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission and two representatives of State Governments will be notified later.

Now, therefore, it is notified for information of the public that the following person is nominated as member of Central Board for Workers Education as per Rule 3 of Rules and Regulations of Central Board for Workers Education :—

#### REPRESENTATIVE OF EMPLOYERS ORGANISATION

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Smt. Malti Baad<br>Executive Director,<br>Gujarat Employers' Organisation,<br>9, Nikunj Apartment,<br>Visa Court Lane,<br>B/h, Parth Avenue, Vasna Road,<br>Vadodara-390007 | Member |
|--|--------|

The names of one representative of Workers Organisation, one each from Ministry of Human Resource Development and University Grants Commission and two representatives of State Governments will be notified later.

U. D. N. SIDHWANI  
Dy. Secy.